



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 387]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 1982/भाद्र 9, 1904

No. 387]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 1982/BHADRA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1982

का० आ० 623(अ). —केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और
विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार
के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की
अधिसूचना सं० का० आ० 98 (अ) उ० वि० वि० आ०/29ख/73/1,
तारीख 16 फरवरी, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में द्वितीय परन्तुक के खंड (i) में मद (3) के
नीचे "भारतीय जनगणना, 1971" शब्दों और श्रंकों के स्थान पर
"भारतीय जनगणना, 1981" शब्द और श्रंक रख जायेंगे।

[फा० सं० 10/25/82-एल०पी०]

एस० एल० कपूर, संयुक्त सचिव

टिप्पण —अधिसूचना सं० का० आ० 98(अ) उ० वि० वि० आ०/
29ख/73/1 तारीख 16-2-73 का तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन
किया गया है:—

(1) अधिसूचना सं० का० आ० 1817/उ० वि० वि० आ०/29ख/73/2
तारीख 18-6-73

- (2) अधिसूचना सं० का० आ० 671(अ)/उ० वि० वि० आ०/73/3,
तारीख 31-10-73
- (3) अधिसूचना सं० का० आ० 122(अ)/उ० वि० वि० आ०/74/3,
तारीख 26-2-74
- (4) अधिसूचना सं० का० आ० 123(अ)/उ० वि० वि० आ०/29बी/
74/2, तारीख 26-2-74
- (5) अधिसूचना सं० का० आ० 152(अ)/उ० वि० वि० आ०/74/13,
तारीख 29-8-74
- (6) अधिसूचना सं० का० आ० 220(अ)/उ० वि० वि० आ०/29बी/
75, तारीख 19-5-75
- (7) अधिसूचना सं० का० आ० 368(अ)/उ० वि० वि० आ०/29बी/
75/4, तारीख 21-7-75
- (8) अधिसूचना सं० का० आ० 652(अ)/उ० वि० वि० आ०/75/9,
तारीख 13-11-75
- (9) अधिसूचना सं० का० आ० 406(अ)/उ० वि० वि० आ०/29बी/
76/2, तारीख 5-6-76
- (10) अधिसूचना सं० का० आ० 736(अ)/उ० वि० वि० आ०/29बी/
75 तारीख 16-12-76
- (11) अधिसूचना सं० का० आ० 801(अ)/उ० वि० वि० आ०/29बी/
76, तारीख 17-12-76

- (12) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 249(अ)/उ०वि०वि०आ०/
१९७५/७५, तारीख 4-4-78
- (13) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 281(अ), तारीख 26-4-78
- (14) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 750 (अ), तारीख 30-12-78
- (15) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 479(अ), तारीख 22-8-79
- (16) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 563 (अ), तारीख 3-10-79
- (17) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 564 (अ), तारीख 4-10-79
- (18) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 758 (अ), तारीख 24-11-79
- (19) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 761 (अ), तारीख 27-11-79
- (20) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 48 (अ), तारीख 19-1-80
- (21) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 100(अ), तारीख 18-2-80
- (22) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 193(अ), तारीख 13-3-80
- (23) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 312(अ), तारीख 12-5-80
- (24) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 141(अ), तारीख 23-5-80
- (25) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 594(अ), तारीख 31-7-80
- (26) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 610(अ), तारीख 2-8-80
- (27) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 861(अ), तारीख 24-10-80
- (28) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 868(अ), तारीख 25-10-80
- (29) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 879(अ), तारीख 5-11-80
- (30) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 880(अ), तारीख 5-11-80
- (31) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 115(अ), तारीख 14-2-81
- (32) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 293(अ), तारीख 7-4-81
- (33) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 320(अ), तारीख 25-4-81
- (34) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 407(अ), तारीख 2-6-81
- (35) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 516(अ), तारीख 27-6-81
- (36) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 621 (अ) तारीख 3-8-81
- (37) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 655(अ), तारीख 18-8-81
- (38) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 909(अ), तारीख 23-12-81
- (39) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 49(अ), तारीख 25-1-82
- (40) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 356(अ), तारीख 6-8-82
- (41) अधिसूचना सं. कां. प्रां. 603(अ), तारीख 17-8-82

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 1982

S.O. 623(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, namely:—

In the said notification, in clause (i) to the second proviso below item (3), for the words and figures "census of India, 1971" the words and figures "census of India, 1981", shall be substituted.

[F. No. 10/25/82-L.P.]

S. L. KAPUR, Jt. Secy.

NOTE

Notification No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73/1 dated 16-2-73 has been subsequently amended by :

- (1) Notification No. S.O. 1817 dated 18-6-73
- (2) Notification No. S.O. 671(E)/IDRA/73/3 dated 31-10-73
- (3) Notification No. S.O. 122(E)/IDRA/74/3 dated 26-2-74.
- (4) Notification No. S.O. 123(E)/IDRA/29B/74/2 dated 26-2-74
- (5) Notification No. S.O. 152(E)/IDRA/74/13 dtd. 29-8-74
- (6) Notification No. S.O. 220(E)/IDRA/29B/75 dtd. 19-5-75
- (7) Notification No. S. O. 368(7)/IDRA/29B/75/4 dtd. 21-7-75.
- (8) Notification No. S.O. 652(E)/IDRA/75/9 dtd. 13-11-75
- (9) Notification No. S.O. 406(E)/IDRA/29B/76/2 dtd. 5-6-76
- (10) Notification No. S.O. 736(E)/IDRA/29B/75 dtd. 16-12-76
- (11) Notification No. S.O. 801(E)/IDRA/29B/76 dtd. 17-12-76.
- (12) Notification No. S.O. 349(E)/IDRA/29B/75 dtd. 4-4-78
- (13) Notification No. S.O. 281(E) dtd. 26-4-78
- (14) Notification No. S.O. 750(E) dtd. 30-12-78
- (15) Notification No. S.O. 479(E) dtd. 22-8-79
- (16) Notification No. S.O. 563(E) dtd. 3-10-79
- (17) Notification No. S.O. 564(E) dtd. 4-10-79
- (18) Notification No. S.O. 758(E) dtd. 24-11-79
- (19) Notification No. S.O. 761(E) dated 27-11-79
- (20) Notification No. S.O. 48(E) dtd. 19-1-80
- (21) Notification No. S.O. 100(E) dtd. 18-2-80
- (22) Notification No. S.O. 193(E) dtd. 14-3-80
- (23) Notification No. S.O. 312(E) dtd. 12-5-80
- (24) Notification No. S.O. 344(E) dtd. 23-5-80
- (25) Notification No. S.O. 594(E) dtd. 31-7-80
- (26) Notification No. S.O. 610(E) dtd. 2-8-80
- (27) Notification No. S.O. 861(E) dtd. 24-10-80
- (28) Notification No. S.O. 868(E) dtd. 25-10-80
- (29) Notification No. S.O. 879(E) dtd. 5-11-80
- (30) Notification No. S.O. 880(E) dtd. 5-11-80
- (31) Notification No. S.O. 115(E) dtd. 19-2-81
- (32) Notification No. S.O. 293(E) dtd. 7-4-81
- (33) Notification No. S.O. 320(E) dtd. 25-4-81
- (34) Notification No. S.O. 407(E) dtd. 2-6-81
- (35) Notification No. S.O. 516(E) dtd. 27-6-81
- (36) Notification No. S.O. 621(E) dtd. 3-8-81
- (37) Notification No. S.O. 655(E) dtd. 18-8-81
- (38) Notification No. S.O. 909(E) dtd. 23-12-81
- (39) Notification No. S.O. 49(E) dtd. 25-1-82
- (40) Notification No. S.O. 556(E) dtd. 6-8-82
- (41) Notification No. S.O. 603(E) dtd. 17-8-82